



20 (PVI)

PAPER - VI

पत्र - VI

GENERAL SCIENCE, ENVIRONMENT AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT

सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं तकनीकी विकास

Full Marks : 200

पूर्णांक : 200

Time : 3 Hours

समय : 3 घण्टे

Instruction :

- (i) Candidates are required to answer all questions.
- (ii) Question number 1 (one) is compulsory and is of objective type.
- (iii) Question number 1 has 20 (twenty) questions carrying 2 (two) marks each.
- (iv) Question number 2 to 6 are of descriptive nature and answers should not exceed 500-600 words.
- (v) Question number 2 to 6 are of equal value carrying 32 (thirty two) marks each.

निर्देश :

- (i) अभ्यार्थी से सभी प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं।
- (ii) प्रश्न संख्या 1 (एक) अनिवार्य है एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार का है।
- (iii) प्रश्न संख्या 1 (एक) में 20 (बीस) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 (दो) अंक के हैं।
- (iv) प्रश्न संख्या 2 से 6 विवरणात्मक है जिनके उत्तर 500-600 शब्दों से अधिक न हों।
- (v) प्रश्न संख्या 2 से 6 के सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 32 (बत्तीस) अंक का है।

Marks
अंक

1. Choose the correct answer in each of the following objective questions. $(20 \times 2 = 40)$

निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन करें।

I) Sound of frequency below 20 Hz are called

- (a) Audio sounds (b) Infrasonics (c) Ultrasonics (d) Supersonics

20 Hz से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को कहते हैं

- (a) श्रव्य ध्वनि (b) अवश्रव्य ध्वनि (c) पराश्रव्य ध्वनि (d) पराध्वानिकी



20 (PVI)

2



Marks
अंक

- II) A body is lifted from the ground onto a table by you. The amount of work performed in the process not depends upon
- (a) the path along which you lifted the body
 - (b) the time taken by you in the process
 - (c) the weight of the body
 - (d) your own weight

आप किसी वस्तु को जमीन से एक टेबल पर उठा कर रखते हैं। इस क्रिया में सम्पादित कार्य निर्भर नहीं करता है

- (a) वस्तु को कौन से पथ से आपने उठाया
- (b) इस क्रिया में आपने कितना समय लगाया
- (c) वस्तु के वजन पर
- (d) आप के वजन पर

- III) The orbit of revolution of the earth around the sun is
- (a) Circular
 - (b) Elliptical
 - (c) Parabolic
 - (d) Hyperbolic

सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली पृथ्वी का पथ है

- (a) वृत्ताकार
- (b) दीर्घवृत्ताकार
- (c) परावलीय
- (d) दीर्घपरावलीय

- IV) When a conservative force does positive work on a body, its potential energy
- (a) increases
 - (b) decreases
 - (c) remains unaltered
 - (d) fluctuates

जब एक संरक्षित बल किसी पिंड पर सकारात्मक कार्य करता हो, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा

- (a) बढ़ती है
- (b) घटती है
- (c) अपरिवर्तित रहती है
- (d) बदलती रहती है

- V) Father of Genetics is
- (a) Mendel
 - (b) Morgan
 - (c) Muller
 - (d) Hugo de Vries

अनुवांशिकी विषय के पिता निम्नलिखित में से कौन है ?

- (a) मेंडल
- (b) मॉर्गन
- (c) मुलर
- (d) ह्यूगो डी व्रीस



VI) Stages in proper sequence of Prophase I are

- (a) Zygotene, Leptotene, Pachytene, Diakinesis, Diplotene
- (b) Leptotene, Zygotene, Pachytene, Diplotene, Diakinesis
- (c) Leptotene, Pachytene, Zygotene, Diakinesis, Diplotene
- (d) Diplotene, Diakinesis, Pachytene, Zygotene, Leptotene

पूर्वावस्था के अवस्थाओं को क्रमबद्ध सजा कर लिखें।

- (a) जायगोटीन, लेप्टोटीन, पैकीटीन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन
- (b) लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस
- (c) लेप्टोटीन, पैकीटीन, जायगोटीन, डायकाइनेसिस, डिप्लोटीन
- (d) डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, पैकीटीन, जायगोटीन, लेप्टोटीन

VII) Haemophilia is

- (a) an infectious disease
- (b) sex linked disease
- (c) caused by malnutrition
- (d) none of the above

हीमोफिलिया

- (a) एक छूत की बीमारी है
- (b) लिंग से संबंधित बीमारी है
- (c) कुपोषण के कारण होता है
- (d) इनमें से कोई नहीं

VIII) The organelles called as “power house” of the cell are

- (a) Golgi apparatus
- (b) Ribosomes
- (c) Mitochondria
- (d) Lysosomes

इनमें से किस ऑर्गेनेल को कोशिका का “पावर हाऊस” कहा जाता है?

- (a) गॉल्जी एपारेटस
- (b) राइबोजोम्स
- (c) माइटोकॉन्फ्रीया
- (d) लाइसोजोम्स

IX) The major nutrients for plants are

- (a) Fe, Mn, Zn
- (b) N, P, K
- (c) Cu, Mo, B
- (d) Co, Cl, Na

पौधों के लिए पोषक तत्व हैं

- (a) लोहा, मैंगनीज़, जिंक
- (b) नाइट्रोजन, स्फुर, पोटाश
- (c) कॉपर, मौलिब्डेनम, बोरॉन
- (d) कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम



20 (PVI)

4



Marks
अंक

X) The uses of Neem tree

- (a) Timber
- (b) Medicinal
- (c) Fertilizer
- (d) All of the above

नीम पेड़ के उपयोग

- (a) काष्ठ
- (b) औषधि
- (c) खाद
- (d) उपरोक्त सभी

XI) Food-grain includes the following crops

- (a) Cereals and Pulses
- (b) Cereals and Oil seeds
- (c) Cereals, Pulses and Oil seeds
- (d) Cereals, Pulses, Oil seeds and Spices

खाद्यान्न में निम्नलिखित फसलें सम्मिलित होती हैं

- (a) धान्य एवं दलहन
- (b) धान्य एवं तेलहन
- (c) धान्य, दलहन एवं तेलहन
- (d) धान्य, दलहन, तेलहन एवं मसाले

XII) As per Planning Commission Report (1989) on Agroclimatic zones of India, Jharkhand comes under

- (a) Central Plateau and hill region
- (b) Western Plateau and hill region
- (c) Eastern Plateau and hill region
- (d) Trans Gangatic plain region

योजना आयोग रिपोर्ट (1989) में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखण्ड किस क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ?

- (a) मध्य पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र
- (b) पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र
- (c) पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र
- (d) मध्यवर्ती गांगीय क्षेत्र



XIII) Which four components constitute an ecosystem ?

- (a) Water, Carbon, Oxygen, Sulphur
- (b) Soil, Temperature, Humidity, Rainfall
- (c) Abiotic materials, Producers, Consumers, Decomposers
- (d) Herbivores, Carnivores, Bacteria, Parasites

किन चार घटकों द्वारा पारिस्थितिकी का निर्माण होता है ?

- (a) जल, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर
- (b) मृदा, तापमान, आद्रता, वर्षा
- (c) अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक
- (d) शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, परजीवी

XIV) The advantage of implementing rain water harvesting is

- (a) It recharges ground water levels
- (b) It reduces run-off
- (c) It avoids flooding
- (d) All of the above

रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या फायदे हैं ?

- (a) यह ग्राउंड वाटर को रीचार्ज करता है
- (b) पानी को बह जाने से रोकता है
- (c) बाढ़ से बचाता है
- (d) उपरोक्त सभी

XV) Sardar Sarovar Project is built on

- (a) Sone river
- (b) Tapti river
- (c) Narmada river
- (d) None of the above

सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है ?

- (a) सोन
- (b) ताप्ती
- (c) नर्मदा
- (d) कोई नहीं



20 (PVI)

6

Marks
अंक

XVI) Red data book provides data on

- (a) red flower plants
- (b) red coloured fishes
- (c) red coloured insects
- (d) endangered plants and animals

रेड डाटा बुक में कौन सी सूचना है ?

- (a) लाल पुष्प वाले पौधों की
- (b) लाल रंग वाली मछलियों की
- (c) लाल रंग के कीड़ों की
- (d) लुप्तप्राय: पौधे और पशुओं की

XVII) The HIV and AIDS (Prevention and Control) Act was implemented in

- (a) 2014
- (b) 2015
- (c) 2016
- (d) 2017

HIV एवं AIDS (निवारण एवं नियन्त्रण) एक्ट किस साल लागू हुआ ?

- (a) 2014
- (b) 2015
- (c) 2016
- (d) 2017

XVIII) GIS deals with which kind of data ?

- (a) Numeric data
- (b) Binary data
- (c) Spatial data
- (d) Complex data

GIS किस तरह के डेटा से संबंधित है ?

- (a) संख्यात्मक डेटा
- (b) बाइनरी डेटा
- (c) स्थानिक डेटा
- (d) जटिल डेटा

XIX) Conventional source of energy is

- (a) Wind energy
- (b) Solar energy
- (c) Coal
- (d) Nuclear energy

पारम्परिक ऊर्जा-स्रोत है

- (a) पवन ऊर्जा
- (b) सौर ऊर्जा
- (c) कोयला
- (d) नाभिकीय ऊर्जा



XX) Leprosy is caused due to

- | | |
|-------------------|----------------|
| (a) Clostridium | (b) Salmonella |
| (c) Mycobacterium | (d) Bacillus |

निम्नलिखित में से कौन कुष्ठ रोग के कारण हैं ?

- | | |
|-----------------------|---------------|
| (a) क्लॉस्ट्रीडियम | (b) सालमोनेला |
| (c) माइक्रोबैक्टीरियम | (d) बैसीलस |

2. What are infrasonic and ultrasonic sounds ? Name the sources of infrasonic sound in nature. Describe the characteristics and applications of ultrasonic sound.

32

अपश्रव्य एवं पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या हैं ? प्रकृति में अपश्रव्य ध्वनि के स्रोतों का नाम लिखें । पराश्रव्य ध्वनि की विशेषताओं एवं उपयोगों का वर्णन करें ।

OR/अथवा

State Kepler's laws of planetary motion. Distinguish between Lunar eclipse and Solar eclipse.

केपलर के ग्रहीय गति के सिद्धान्त का वर्णन करें । चन्द्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण के बीच प्रभेद बताएँ ।

3. What do you understand by sex linked inheritance ? Illustrate with suitable examples.

32

लिंग सहलग्न वशांगति से आप क्या समझते हैं ? इसे उदाहरण देकर समझाएँ ।

OR/अथवा

Name four important hormones of Pituitary gland. Discuss their functions.

पीयूष ग्रंथि के चार प्रमुख हारमोन्स के नाम लिखें । इनके कार्यों की व्याख्या करें ।

4. What do you mean by Agroforestry. Describe the importance of Agroforestry and their management.

32

कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं ? कृषि वानिकी के महत्व एवं प्रबन्धन का वर्णन करें ।

OR/अथवा

Explain in brief the salient features of Pradhan Mantri Phasal Beema Yojna.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें ।



20 (PVI)

8



Marks
अंक

5. What is solid waste management ? Write causes, effects and control methods of urban and industrial waste. 32

ठोस अपशिष्ट का प्रबंध क्या है ? नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, प्रभाव व नियंत्रण के उपाय लिखें।

OR/अथवा

Explain the evidences and causes of climate change.

जलवायु परिवर्तन के प्रमाणों और कारणों का विवरण प्रस्तुत कीजिए।

6. What is global energy crisis ? Give a detailed account of alternative source of energy. 32

वैश्विक ऊर्जा संकट क्या है ? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विस्तृत विवरण लिखें।

OR/अथवा

Define cancer. Give an account of various kinds of cancers. Mention a list of carcinogens.

कैंसर रोग की परिभाषा दें। कैंसर के प्रकार का वर्णन करें। कारसेनोजेन्स की सूची दें।